



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2522]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2522]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

का.आ. 3039(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 537(अ), तारीख 22 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के 186/000 कि.मी. से 229/000 कि.मी. (अलीगढ़ से कानपुर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 12-4-2012 को “दैनिक जागरण” और “हिन्दुस्तान टाइम्स” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के 186+000 कि.मी से 229+000 कि.मी तक (अलीगढ़ से कानपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मी० में	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	एटा	एटा	लाल डुंडवारा	369	निजी	कृषि भूमि	1143	नेत्रपाल पुत्र होरीलाल, महाराज सिंह
				370	निजी	कृषि भूमि	382	मलिखान सिंह पुत्र भोले सिंह
				372	निजी	कृषि भूमि	40	श्रीनिवास और खुशहाली राम पुत्र कांशीराम, घनश्याम पुत्र बैचेलाल
				373	निजी	कृषि भूमि	324	नेत्रपाल पुत्र होरीलाल
				381	निजी	कृषि भूमि	414	दौलतराम पुत्र दिवारीलाल, कंचनदेवी पत्नी दिवारीलाल, चंगामल सरदार पुत्र रुद्रा सिंह
				386	निजी	कृषि भूमि	260	दौलत राम पुत्र दिवारीलाल, कंचनदेवी पत्नी दिवारीलाल
				388	निजी	कृषि भूमि	1052	रवेन्द्र सिंह पुत्र मुकट सिंह, योगेन्द्र सिंह पुत्र मुकट सिंह, टिकू पुत्र मुकट सिंह, जलदेवी पत्नी मुकट सिंह
				389	निजी	कृषि भूमि	760	रामभरोसे पुत्र सीताराम
				391	निजी	कृषि भूमि	1633	इशाचरन पुत्र ज्वाली

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू-अलीगढ़/15011/2012]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2012

S.O. 3039(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number **S.O. 537 dated 22nd March, 2012**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the

National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 91 on the stretch of land from Km 186+000 to Km 229+000 in Etah district (Aligarh to Kanpur Section) in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Jagran" and "Hindustan Times" both dated 12.04.2012; under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 186+000 to Km. 229+000 in Etah district (Aligarh-Kanpur Section) on the National Highway No. 91 in the State of Uttar Pradesh .

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in Square metres	Name of the land owner/ Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Etah	Etah	Lal Dudwara	369	Private	Agriculture	1143	Netrapal S/o Horilal, Maharaj Singh
				370	Private	Agriculture	382	Malikhan Singh S/o Bhole Singh
				372	Private	Agriculture	40	Sriniwas and Khusaliram S/o Kashiram, Ghanshyam S/o Benchelal
				373	Private	Agriculture	324	Netrapal S/o Horilal
				381	Private	Agriculture	414	Daulatram S/o Diwarilal, Kanchan Devi W/o Diwarilal, Changamal Sardar S/o Rudra Singh
				386	Private	Agriculture	260	Daulat Ram S/o Diwarilal, Kanchan Devi W/o Diwarilal

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				388	Private	Agriculture	1052	Ravendra Singh S/o Mukat Singh, Yogendra Singh S/o Mukat Singh, Tinku S/o Mukat Singh, Jaldevi W/o Mukat Singh
				389	Private	Agriculture	760	Rambharose S/o Sitaram
				391	Private	Agriculture	1633	Ishacharan S/o Jwali

[F. No. NHA/PIU-Alg/15011/2012]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.